



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 96] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 31, 1984/चैत्र 11, 1906
No. 96] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 31, 1984/CHAITRA 11, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग, संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय
(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1984

सां०कां०नि० 247(अ) :—केन्द्रीय सरकार महापत्तन
म्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3
की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (ii) द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बम्बई पत्तन से सम्बन्धित
भारत सरकार में नौवहन और परिवहन मंत्रालय (पत्तन
पक्ष) की अधिसूचना सं० सां०कां०नि० 58 (अ) दिनांक
10 फरवरी, 1984 में निम्नलिखित संशोधन करती है,
अर्थात्

उक्त अधिसूचना के निम्नलिखित सारणी में—

(क) कालम (2) में प्रविष्टि 'बृहत्तर बम्बई' का नगर
निगम' और उसके सामने कालम (3) और (4) में उल्लि-
खित प्रविष्टियों का हटाया जायगी।

(ख) कालम (4) में शब्द, 'कुल' के सामने संख्या '10' के
बदले संख्या '9' रखी जायगी।

[फाइल सं०-पी०डब्ल्यू/पी०टी०बी०-21/83—I]]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31 March, 1984

G.S.R. 247(E).—In exercise of the powers conferred by
sub-clause (ii) of clause (c) of sub section (1) of section 3 of the
Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Govern-
ment hereby makes the following amendment in the notifi-
cation of the Government of India in the Ministry of Shipping
and Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 58(E), dated the
10th February, 1984, relating to the Port of Bombay, namely —

In the Table below the said notification —

(a) the entry "Municipal Corporation of Greater Bombay"
occurring in column (2) and the corresponding entries
occurring in columns (3) and (4) shall be omitted.

(b) against the Word "Total", in column (4), for the figures "10", the figure "9" shall be substituted.

[F. No. PW/PTB-21/83-I]

सांका०नि० 248(अ) :—केन्द्रीय सरकार महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बम्बई पत्तन से सम्बन्धित भारत सरकार में नौवहन और परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना सं० सां० का० नि० 57 (अ) दिनांक 10 फरवरी 1984 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

(क) प्रविष्टि 'नौवहन और परिवहन मंत्रालय' के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाय, अर्थात्

1	2
'एक्सिम बैंक लिमिटेड, बम्बई'	1'

(ख) कालम (2) में 'कुल' शब्द के सामने संख्या '9' के बदले संख्या '10' रखी जाय।

[फाइल सं०-पी०डब्ल्यू/पी०टी०बी० -21/83-II]

G.S.R. 248(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 57(E), dated the 10th February, 1984, relating to the Port of Bombay namely :—

In the Table below the said notification :—

(a) after the entry "Ministry of Shipping and Transport" the following entry shall be inserted, namely :—

1	2
"EXIM Bank Limited, Bombay.	1"

(b) against the word "Total", in column (2), for the figure "9", the figure "10", shall be substituted.

[F. No. PW/PTB-21/83-II]

सांका०नि० 249(अ) :—केन्द्रीय सरकार महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के साथ पठित उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बम्बई पत्तन के लिए न्यासी मंडल के निम्नलिखित सारणी के क्रम सं०-1 से 12, 20 और 21 में उल्लिखित व्यक्तियों को न्यासी नियुक्त करती है और उक्त बोर्ड में उसी सारणी के क्रम सं० 13 से 19 में उल्लिखित व्यक्तियों को निर्वाचित न्यासी अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

सारणी

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1. श्री के० के० उप्पल | अध्यक्ष |
| 2. श्री जफर सैयद | उपाध्यक्ष |

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 3. मुख्य अधिकारी, समुद्री व्यापार | समुद्री व्यापार विभाग का प्रतिनिधि |
| 4. समाहर्ता, सीमा शुल्क, बम्बई | सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधि |
| 5. सचिव, महाराष्ट्र सरकार गृह | महाराष्ट्र सरकार के प्रति-निधि (परिवहन) विभाग |
| 6. प्रभारी नौ सैनिक अधिकारी, | रक्षा सेवाओं का प्रतिनिधि बम्बई |
| 7. अपर महाप्रबन्धक (परिचालन) | भारतीय रेल का प्रतिनिधि केन्द्रीय रेलवे, बम्बई |
| 8. श्री के०एस० रेड्डी निदेशक, | एक्सिम बैंक लि०, बम्बई एक्सिम बैंक लिमिटेड, बम्बई का प्रतिनिधि |
| 9. उप विकास सलाहकार नौवहन | नौवहन और परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधि और परिवहन मंत्रालय |
| 10. संयुक्त सचिव (परिवहन) | वाणिज्य मंत्रालय का प्रति-वाणिज्य मंत्रालय निधि |
| 11. कार्यकारी निदेशक, (लाइनर | भारतीय नौवहन निगम लि० सेवाएं) भारतीय नौवहन निगम लि०, बम्बई का प्रतिनिधि |
| 12. निदेशक (मार्केटिंग) भार- | भारतीय तेल निगम का प्रतिनिधि |
| 13. श्री एन० एम० त्रिवेदी | इंडियन नेशनल शिपओनर्स एसोसियेशन का प्रतिनिधि |
| 14. श्री डी० एम० पारेख | आल इंडिया सेलिंग वेस्ट्स इंडस्ट्री एसोसियेशन का प्रतिनिधि |
| 15. श्री एस० एस० कस्तीवाल | महाराष्ट्र चैम्बर आफ कामर्स बम्बई का प्रतिनिधि |
| 16. श्री आई० एच० पदम्सी | अखिल भारतीय नाविक परिषद् का प्रतिनिधि |
| 17. श्री जे० एच० दोषी | इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर, बम्बई का प्रतिनिधि |
| 18. श्री जी० मथानी | बम्बई चैम्बर आफ कामर्स और उद्योग का प्रतिनिधि |
| 19. श्री ए० पाल फ्रान्सेजी | बम्बई कम्स्ट्स हाऊस एजेन्ट्स एसोसियेशन बम्बई का प्रतिनिधि |
| 20. श्री एस० आर० कुलकर्णी | } पत्तन में नियुक्त श्रमिकों के प्रतिनिधि |
| 21. डा० शान्ति जे० पटेल | |

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1984 से लागू होगी।

[फाइल सं०-पी०डब्ल्यू०/पी०टी०बी०-21/83-III]

सदर्थन बसदेव उप सचिव

G.S.R. 249(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 12, 20 and 21 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Bombay, and notifies the persons mentioned against serial numbers 13 to 19 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

TABLE

1. Shri K.K.Uppal	Chairman.	11. Executive Director, (Liner Services), Shipping Corporation of India Limited, Bombay.	Representing the Shipping Corporation of India Limited.
2. Shri Zafar Saifullah	Deputy Chairman.	12. Director (Marketing), Indian Oil Corporation Limited, Bombay.	Representing the Indian Oil Corporation.
3. Principal Officer, Mercantile Marine Department, Bombay.	Representing the Mercantile Marine Department.	13. Shri N.M. Trivedi	Representing the Indian National Shipowners' Association.
4. Collector of Customs, Bombay.	Representing the Customs Department.	14. Shri D.M. Parekh	Representing the Federation of All India Sailing Vessels Industry Associations.
5. Secretary to the Government, Home (Transport), Government of Maharashtra.	Representing the Government of Maharashtra.	15. Shri A.S. Kasliwal	Representing the Maharashtra Chamber of Commerce, Bombay.
6. Naval Officer-in-Charge, Bombay.	Representing the Defence Services.	16. Shri I.H. Padamsee	Representing the All India Shippers Council.
7. Additional General Manager (Operations), Central Railway, Bombay.	Representing the Indian Railways.	17. Shri J.H. Doshi	Representing the Indian Merchants' Chamber, Bombay.
8. Shri K.S. Reddy, Director, EXIM Bank Limited, Bombay.	Representing the EXIM Bank Limited, Bombay.	18. Shri G. Mathrani	Representing the Bombay Chamber of Commerce and Industry, Bombay.
9. Deputy Development Adviser, Ministry of Shipping and Transport.	Representing the Ministry of Shipping and Transport.	19. Shri A. Paul Fernandes	Representing the Bombay Customs House Agents Association, Bombay.
10. Joint Secretary (Transport), Ministry of Commerce.	Representing the Ministry of Commerce.	20. Shri S.R. Kulkarni 21. Dr. Shanti G. Patel	Representing the labour employed in the Port.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1984.

[F. No. PW/PTB-21/83-III]

S. VASUDEV, Dy. Secy.

